

Advik Capital Limited

(Formerly known as Advik Industries Limited)

CIN : L65100DL1985PLC022505

Regd. Office: Advik House, Plot No.84, Khasra No. 143/84

Extended Lal Dora 100 Ft. Road, Kanjhawala, New Delhi-110081

E-mail: info@advikgroup.com | Tel: +91-11-25952595

Fax: +91-11-25952525 | Help Line: +91-9136311500

www.advikgroup.com



August 08, 2022

Listing Compliance Department
BSE Limited
Phirozee Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Fort,
Mumbai - 400 001

(Scrip Code: 539773)

Sub: Newspaper Advertisement of Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter ended June 30, 2022.

Dear Sir/Madam,

We are enclosing herewith the copies of the newspaper advertisement relating to the publication of Audited Financial Results of the Company for the quarter and financial year ended June 30, 2021, as published in Financial Express (English Edition) and Jansatta (Hindi Edition) newspapers both dated August 7, 2022 in compliance with the provisions of Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

The above information is also available on the Company's website at www.advikgroup.com

You are requested to take the information on record.

Thanking you,

Yours Faithfully,

for Advik Capital Limited


Rashika Gupta
Company Secretary



AXIS BANK LTD. POSSESSION NOTICE

Registered Office: "Trishul", 3rd Floor, Opp. Samarsheshwar Temple, Near Law Garden, Ellisbridge, Ahmedabad-380006.

Where as the undersigned being the Authorized Officer of **AXIS BANK LTD.** under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise or power conferred under Section 13 (12) read with Rule-9 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand notice under section 13(2) of the said Act. The borrower/s mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/s mentioned here in above in particular and to the public in general that the undersigned has taken Possession of the property described herein below in exercise of powers confer on him under section 13(4) of the said Act read with the rule8 of the Said Rules. The borrower/s mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to be deal with the said property and any dealings with the said property will be subject to the mortgage of **AXIS BANK LTD.** for an amount together with further interest incidental expenses, costs, charges, etc. on the amount mentioned against each amount herein below. The Borrower/s/Co-Borrower (s)/Mortgagor(s)/Guarantor(s) attention is invited to provisions of sub-section(8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets.

Name of the Borrowers/ Guarantors/Address	Description of the Mortgaged Property	Amt. Due as per Demand notice
Dev Prashant Trivedi (Borrower) S/o Sh. Manav Dev Trivedi R/o- C-72, Radha Puram, Near Ganasara Road, Mathura -281004, R/o-2 MIG-37, LDA Colony, Aishbagh, Lucknow 228004, R/O-3 Flat Number 531, 2nd Floor, PKTGH-4, Sector 28, Rohini, Delhi-110042, Archana Diwedi (Co-Borrower) W/o Sh. Dev Prashant Trivedi R/o C-72, Radha Puram, Near Ganasara Road, Mathura - 281004, R/O MIG-37, LDA Colony, Aishbagh, Lucknow- 228004	Land/property Covered Area 484 sq.ft, situated at FLAT NUMBER 531, 2ND FLOOR, PKT-GH-4, SECTOR 28, ROHINI, DELHI 110042 which is in the name of DEV PRASHANT TRIVEDI, Bounded as: East - Entry, West - Open, North - Open, South - Flat Number 530	Rs. 3,95,202.00, Rs.8,39,323.00 as on 30.03.2022 + interest & other expenses 30.03.2022 02.08.2022

Date- 07.08.2022 Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

AXIS BANK LTD. E-Action Sale Notice For Sale of Immovable Property

Registered Office: "Trishul", 3rd Floor Opp. Samarsheshwar Temple Law Garden, Ellisbridge Ahmedabad - 380006

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 read with proviso to Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) Rule, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property is mortgaged/charged to the secured creditor, the physical possession of which has been taken by the Authorized Officer of Secured Creditor will be sold on "As is where is", "As is what is" and "Whatever there is" on 26.08.2022 for recovery of Rs. 4,38,053.00 dues as on 04.08.2022 with future interest and costs due to the secured creditor from **MOTI LAL S/O SHRI MANNU LAL, MRS. ARCHANA GUPTA W/O SHRI MOTI LAL** In Loan No. PHR033700807785. Please refer the appended auction schedule for necessary details:-

Sr. No.	Known Encumbrances (if Any)	Reserve Price (in Rs.) Earnest Money Deposit (in Rs.)	Bid Incremental Amount	Last Date, Time And Venue For Submission of Bids / Tender With Emd	Date, Time, And Venue For Public Auction
1.	NIL	Rs. 810000/- (RP) Rs. 810000/- (EMD) through DD/PO in favor of 'Axis bank ltd.' payable at Lucknow/Agra	Rs. 10,000/- (Rs Ten Thousand only)	Till 26th Aug, 2022, latest by 05:00 P.M. at Axis Bank Limited, (RAC), First Floor, G- 4/5, B, Sector-4, Gomti Nagar Extension, Lucknow - 228010, U.P.	On 26th Aug, 2022 between 11:00 A.M to 12:00 Noon, with unlimited extensions of 5 minutes each at web portal https://www.bankauctions.com e-auction tender documents containing e-auction bid form, declaration etc., are available in the website of the Service Provider as mentioned.

Sr. No. 1 - SCHEDULE - DESCRIPTION OF PROPERTY: All such pieces or parcels of a diverted land/property measuring area 92.94 SQ.MT., situated at Open Plot At Azadi No. 3814, (out Side Badagon Gate), Mouja, Tehsil & Distt. Jhansi. Bounded as: East - Land Of Seller West - Land of Seller, North - Land Of Seller, South- Road, for detailed terms and conditions of the sale, please refer to the link provided in the secured creditor's website i.e. <https://www.axisbank.com/auction-retail> and the Bank's approved service provider M/S C1 India Private Limited at their web portal <https://www.bankauctions.com>, may also contact Mr. Mihalesh Kumar +91-7080804466 The auction will be conducted online through the Bank's approved service provider M/S.C1 India Private Limited at their web portal <https://www.bankauctions.com>. For any other assistance, the intending bidders may contact Mr. Ajmal Ahmed Mobile No. (8090287582) of the Bank during office hours from 9:30 a.m. to 4:30 p.m. This Notice should be considered as 15 Days' Notice to the Borrowers under Rule 8(6) of the Security Interest (Enforcement) rule, 2002.

Date: 07.08.2022 Authorized Officer, Axis Bank Ltd.

ADVIK CAPITAL LIMITED

Registered office: Plot No. 84, Khasra No. 143/84, Ground Floor, Extended Lal Dora, Kanjhawla, Delhi-110081, Ph No: 011-25952595, Website: www.advikgroup.com, Email: advikcapital@gmail.com, cs@advikgroup.com

STATEMENT OF UNAUDITED CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED JUNE 30, 2022

(Rs. In Lakhs)

S. No.	Particulars	Consolidated			
		Three Months Ended		Year Ended	
		30-Jun-22	31-Mar-22	30-Jun-21	31-Mar-22
		Unaudited	Audited	Unaudited	Audited
1	Total Income	10,951.09	3,412.96	72.51	4,657.72
2	Total Expenses	10,827.26	3,389.00	72.62	4,594.43
3	Net Profit/ (Loss) Before Tax	123.83	23.96	-0.11	63.29
4	Net Profit/ (Loss) After Tax	92.66	18.97	-0.11	47.38
5	Total comprehensive income for the period	92.66	18.97	-0.11	47.38
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value Rs.1 each)	2,201.93	458.74	458.74	458.74
7	Earning per Equity Share of Re 1/- each				
	Basic	0.05	0.04	0.02	0.10
	Diluted	0.05	0.04	0.02	0.10

Notes to Unaudited Consolidated IND AS Financial Results:

- The above is an extract of the detailed format of financial results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full format of the financial results are available on the Stock Exchange websites (www.bseindia.com) and on company's website (www.advikgroup.com).
- The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held in August 5, 2022. The Statutory auditors have carried out audit of the results for the quarter ended June 30, 2022.

for Advik Capital Limited
Virender Kumar Agarwal
Managing Director
DIN:00531255

Place: New Delhi
Date: August 5, 2022

SBEC SUGAR LIMITED

Regd. Off. : Village Lohan Malakpur, Tehsil Baraut, District Bagpat, Uttar Pradesh - 206611
CIN: L15421UP1991PLC019160
Tel.: +01234-259206 Fax : +91-1234-259200
E-mail: investors@sbecsugar.com, Website: www.sbecsugar.com

EXTRACT OF THE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE , 2022

(Rs. in Lacs)

S. No.	Particulars	STANDALONE		CONSOLIDATED			
		3 Months ended 30th June,2022	Corresponding 3 Months ended 30th June,2021	3 Months ended 30th June,2022	Corresponding 3 Months ended 30th June,2021		
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Unaudited		
1	Total Income from Operations	16,675.59	15,331.90	60,302.63	16,897.61	16,214.79	6,205.28
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	560.98	(855.15)	(1,065.77)	476.83	(314.95)	(742.60)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	560.98	(855.15)	(1,065.77)	476.83	(314.95)	(742.60)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after exceptional and/or Extraordinary items)	560.98	(855.15)	(1,065.77)	476.83	(428.74)	(857.03)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income(after tax)]	542.24	(854.93)	(1,140.71)	460.36	(428.72)	920.45
6	Equity Share Capital	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39	4,765.39
7	Reserve excluding Revaluation Reserves as per balance sheet of previous year	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (EPS) (for continuing and discontinued operations)						
a	Basic	1.18	(1.79)	(2.24)	1.00	(0.90)	(1.80)
b	Diluted	1.18	(1.79)	(2.24)	1.00	(0.90)	(1.80)

NOTE:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly results filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing and other Disclosures Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly Financial Results are available on the website of the Stock Exchange at www.bseindia.com and on Company's website at www.sbecsugar.com.
- The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board at their meetings held on 06th August, 2022.
- The Financial results have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind-AS) as prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Indian Accounting Standards) Rule (As amended).

By Order of the Board
for SBEC SUGAR LIMITED
Sd/-
Umesh Kumar Modi
Chairman and President
Date: 06th August, 2022
DIN: 00002757

GRP LIMITED (CIN : L25191GJ1974PLC002555)

Regd. Off.: Plot No.8, GIDC Estate, Ankleshwar - 393 002 Dist. Bharuch, Gujarat, Tel.: 022 67082600/2500, E-mail id : investor.relations@grpweb.com, website: www.grpweb.com

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30th JUNE, 2022

(₹ in Lakhs)

Sr. No.	Particulars	Standalone			Consolidated		
		Quarter ended		Year ended	Quarter ended		Year ended
		30-06-2022	30-06-2021	31-03-2022	30-06-2022	30-06-2021	31-03-2022
		Unaudited	Unaudited	Audited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operation (Net)	12,375.52	8,275.00	38,812.80	12,413.61	8,307.62	38,842.37
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	138.40	59.15	744.93	137.76	57.80	744.08
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	138.40	59.15	744.93	137.76	57.80	744.08
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	109.76	(69.93)	578.49	108.79	(71.67)	576.05
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	19.54	(128.91)	498.08	17.86	(130.06)	497.52
6	Equity Share Capital	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33	133.33
7	Other Equity (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	13,890.26	-	-	13,488.95
8	Earnings Per Share (of ₹10/- each) (for continuing and discontinued operations) (*Not Annualised)						
	1. Basic : (in ₹)	8.23 *	(5.24)*	43.39	8.16 *	(5.38)*	43.20
	2. Diluted : (in ₹)	8.23 *	(5.24)*	43.39	8.16 *	(5.38)*	43.20

Notes:

- The above is an extract of the detailed format of Quarterly/ Year ended Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Quarterly/ Year ended Financial Results are available on the Stock Exchange websites (www.nseindia.com) and on the Company's website (www.grpweb.com).
- The above results have been reviewed by the Audit committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 06th August, 2022.
- Figures for the previous period are regrouped/reclassified wherever necessary, to make them comparable.

Place : Mumbai
Date : 06th August, 2022

FOR GRP LIMITED
HARSH R. GANDHI
JOINT MANAGING DIRECTOR

Union Bank of India

Regional Office Chandigarh, SCO-64-65, 1st Floor, Bank Square, Sector 17B, Chandigarh

DEMAND NOTICE

NOTICE U/S 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT 2002 (SARFAESI)

A notice is hereby given that the following borrower(s) have defaulted in the repayment of principal and interest of credit facilities obtained by them from the bank and said facilities have turned Non Performing Assets. The notice under section 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 were issued to Borrower(s) / Guarantor(s) at their last known addresses by registered / speed post. However the notices have been returned un-served and the Authorized Officer has reasons to believe that the borrower(s) / guarantor(s) are avoiding the service of notice, as such they are hereby informed by way of public notice about the same.

Name of Branch/ Borrower(s) & Guarantor(s)	Description of the Secured Assets	Date of Demand Notice	Amount as per demand notice
BRANCH: SCF 54, SECTOR-8, PANCHKULA Mr. Shah Nazar Address: H. No. 119, Village Toga, Distt. Mohali, Punjab. Pin Code: 160101, Contact No. - 9569161666, Co-Applicant: Mr. Shah Alam Address: H. No. 119, Village Toga, Distt. Mohali, Punjab, Pin Code: 160101, Contact No. 8567873579	Land and Building -Khevat No 353/385 Khasra No 260(4-0) measuring 4 Bighas share 140 i.e. 2 Biswas in Village Behlopur Tehsil & Distt. Mohali	31.07.2022	Rs. 29,94,767.10 as on 25.07.2022 with subsequent interest and charges including intt. up to 31.07.2022
Ambala City Branch: 622-23, Katcheri Road, Ambala City 1. Mr. Sheikh Moutau Rahaman S/o Sheikh Ansar Ali (Borrower), H.No. 1707, Sector 9, Ambala City (Haryana). 2. Mr. S.K. Ansar Ali, H.No. 1646, Sector 9, Housing Board Colony, Ambala City, Haryana (Borrower)	Residential property House No. 1646 LIG Housing Board Colony, Sector 9, Ambala City. Boundaries of the property: North: Gali, South: Others, East: #1647, West: #1645.	15.07.2022	Rs. 7,73,241.87 together with contractual rate of interest from 16.07.2022 with monthly rests

The above Borrower(s) / Guarantor(s) are advised to pay the amount mentioned in notice within 60 days from the date of the publication of this notice failing which we shall exercise all or any of the rights under section 13(4) of the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002.

Your attention is hereby drawn invited to provision of Sub-Section (8) of Section 13 of the Act in respect of time available to you redeem of the secured assets. Please take notice that in terms of section 13(13) of the said Act, you shall not, after receipt of this notice, transfer by way of sale, lease or otherwise (other than in the ordinary course of business) any of the secured assets above referred to, without prior written consent of the Bank. You are also put on notice that any contravention of this statutory injunction/restraint, as provided under the said Act, is an offence. If for any reason, the secured assets are sold or leased out in the ordinary course of business, the sale proceeds or income realised shall be deposited/remitted with/to the Bank. You will have to render proper account of such realisation/income. (*We reserve our rights to enforce other secured assets.). Please comply with this demand under this notice and avoid all unpleasantness. In case of Non-Compliance, further needful action will be resorted to, holding you liable for all costs and consequences. *This notice is issued without prejudice to the bank taking legal action before DRT/Court, as the case may be.

Date: 06.08.2022 Place: Chandigarh Authorized Officer

BIHAR SPONGE IRON LIMITED

CIN: L27106JH1982PLC001633
Registered office: Umesh Nagar, Chandil, District Saraikela Kharsawan, Jharkhand- 832401
Email: companysecretary@bsil.org.in | web: www.bsil.org.in

STATEMENT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED ON 30th JUNE, 2022

(Rs. in lacs)

Sr. No.	Particulars	QUARTER ENDED		YEAR ENDED	
		30.06.2022 (Un-audited)	31.03.2022 (Audited)	30.06.2021 (Un-audited)	31.03.2022 (Audited)
1	Total Income from Operations	11,259.38	6,531.40	1,484.06	9,458.02
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional Items)	53.03	259.87	408.50	817.17
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional items)	53.03	269.39	408.50	826.69
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional items)	53.03	269.39	408.50	826.69
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	53.03	269.39	408.50	826.69
6	Equity Share Capital	9,020.54	9,020.54	9,020.54	9,020.54
7	Earning per share (of Rs. 10/- each) (for continuing and discontinued operations) (not annualised)				
a	Basic (in Rs.)	0.06	0.30	0.45	0.92
b	Diluted (in Rs.)	0.06	0.30	0.45	0.92

NOTE:

The above is an extract of the detailed format of financial results for the Quarter ended 30th June, 2022, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the financial results for the Quarter ended on 30th June, 2022 is available on the website of the Stock Exchange www.bseindia.com and on Company's website www.bsil.org.in.

The above results are in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) as prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 read with Rule 3 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 and Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment Rules), 2016.

For BIHAR SPONGE IRON LIMITED
Sd/-
UMESH KUMAR MODI
CHAIRMAN & PRESIDENT
(DIN: 00002757)

Place: New Delhi
Date: 6th August, 2022

Bank of Baroda

Branch - Laxmi Nagar Delhi 110092, e-mail - DBLAXM@bankofbaroda.co.in

ANNEXURE-A
(Abridged Sale Notice for publication in News Papers for Auction conducted on e-Bkray portal)

Sale Notice for Sale of Immovable Properties
*APPENDIX- IV-A [See proviso to Rule 6 (2) & 8 (6)]

E-Auction Sale Notice for Sale of Immovable Assets under the Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002
read with proviso to Rule 6 (2) & 8 (6) of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002.

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower (s), Mortgagor (s) and Guarantor (s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, possession of which has been taken by the Authorized Officer of Bank of Baroda, Secured Creditor, will be sold on "As is where is", "As is what is", and "Whatever there is" basis for recovery of dues in below mentioned accounts. The details of Borrower/s/Mortgagor/Guarantor/s/Secured Asset/s/Dues/Reserve Price/e-Auction date & Time, EMD and Bid Increase Amount are mentioned below -

Sr. No.	Name & address of Borrower/s / Guarantor/ Mortgagors	Give short description of the immovable property with known encumbrances, if any (Mortgaged by Bank of Baroda)	Total Dues	Date of e-Auction / Time of e-auction - Start Time to End Time	1. Reserve Price 2. Earnest Money Deposit (EMD)- Rs 3. Bid Increase Amount-Rs.	Status of Possession (Constructive /Physical)	Property Inspection date & Time.
1	M/s Mr. Amit Walia S/o S Walia, Resident of - 26, Ground Floor Bharat Nagar, Ashok Vihar Delhi-110091	All the part and parcel of residential property Ground Floor Flat No. B-1/B-1/B-65 (Mandakini Apartment), Residential colony DLF Dilshad Extension-II village-Bhopura Pargana-Loni, District-Ghaziabad(UP)	Rs. 5,11,458.38 (Rs Five Lakh Eleven Thousand Four Hundred Fifty eight and thirty eight Paise only) and interest and charged thereon from 13/01/2021	24-08-2022 at From 02.00 PM to 06.00 PM	Reserve Price - Rs. 8,00,000/- EMD - Rs. 80,000.00 and increase amount Rs. 25,000.00	Physical	20-08-2022 10.00 AM to 02.00 PM
2	Borrower: Mr Deelip Kumar & Mrs Sunita Sharma, Residential address- FC-A-824,SGM Nagar, C block 20 Feet Road, NIT Faridabad-110092	All the part and parcel of Residential property Second Floor, Pvt FlatNo-12, Khasra no-298/1, Abadi of Lal Dora, situated at Gadaipur, tehsil Mehrauli, New Delhi belongs to Mr Deelip Kumar & Mrs Sunita Sharma	Rs. 16,96,836.85 (Rs Sixteen Lakh Nineteen Thousand Eight Hundred thirty six and Eighty Five Paise only) and interest and charged thereon from 29.12.2020	24-08-2022 at From 02.00 PM to 06.00 PM	Reserve Price - Rs. 14,70,400/- EMD - Rs. 1,47,040.00 and increase amount Rs. 25,000.00	Physical	20-08-2022 10.00 AM to 02.00 PM

For detailed terms and conditions of sale, please refer/visit to the website link <https://www.bankofbaroda.in/e-auction.htm> and <https://ibapi.in>. Also, prospective bidders may contact the Authorized officer on Tel No/ Mobile - 9113238801

Date : 06-08-2022, Place : New Delhi

SCAN HERE For details visit & conditions.

Manoj Kumar, Authorised Officer (Bank of Baroda)

Hauz Khas BRANCH, New Delhi Zone

Bank of India Email: hauzhas.newdelhi@bankofindia.co.in

Ref. No.: **HZK/2022-23/ADV/** Date: **22.07.2022**

1. M/s Blessing Edutech
2nd Floor, B-38, Shivalik, New Delhi-17
2. Mr. Paramjit Shah Singh (Partner)
B-108, Ground Floor, Mahiya Nagar, New Delhi-17
3. Mr. Jasbir Shah Singh (Partner)
B-108, Ground Floor, Mahiya Nagar, New Delhi-17
4. Ms. Sarabjit Kaur (Partner)
B-108, Ground Floor, Mahiya Nagar, New Delhi-17
Dear Sir/Madam,
Your Credit Facilities with us. Public Notice for sale in respect of Residential Property at: **B-38, Second Floor, Shivalik, New Delhi-110017 (Reserve Price-Rs. 131.00 Lacs)**

Please refer to letter NO. HZK-ADV-SARFAESI:2019-20-03 dated 16.06.2019 and HZK-ADV-SKS:2019-20-03 dated 14.10.2019 vide which we had advised you that you had defaulted in making repayment of Bank's dues. Bank had taken physical possession of secured assets i.e. Property at - B-38, 2nd Floor, Shivalik, New Delhi-110017 on 18-12-2019 and published in Daily Newspaper Jansatta & Financial Express on 14-01-2020 & 24.06.2020
2. Since outstanding dues in the accounts of M/s Blessing Edutech, Mr. Paramjit Shah Singh, Mr. Jasbir Shah Singh, Ms. Sarabjit Kaur are still outstanding, in spite of seizing secured assets, as stated above, Bank is proposing to put Secured Assets as mentioned above, on sale through E-auction process at the Reserve Price as indicated for the said secured assets.
3. The Public Notice for Sale has been got published on 19.07.2022 in Financial Express (English-Delhi + NCR edition) and Jansatta (Hindi -Delhi + NCR edition). Copies of these published Public Notices are enclosed for your information. The notice contains details of Reserve Price fixed, mode of sale, place, date, time of sale and other terms / conditions relating to sale. This may also be treated as 15 days' notice to you.
4. You are once again advised to repay Bank's dues within the said period, otherwise we will be constrained to dispose off the property as per the enclosed sale notice. You may also participate in the auction sale process and may bring prospective buyers for the same.

Authorized Officer

GUJARAT ENERGY TRANSMISSION CORPORATION LTD.

Regd. Office: Sardar Patel Vidyalay Bhavan, Race Course, Vadodra (Gujarat) : 390007

e-TENDER NOTICE INVITING TENDERS OF GETCO CORPORATE OFFICE, VADODARA
GETCO: www.getcojgujarat.com <https://www.nprocure.com>

Tender Notice No. CE (P&C) : TN - 7 : 22-23

[1] **EPC Tender : GETCO/ CE(P&C)/ SFMS/ 43.** Design, Supply, Installation, Testing, Commissioning and Go Live of Smart Feeder Monitoring and Control System for various sub-station Incoming & outgoing feeders including Power Transformers etc. at all 66kV Substations of GETCO.

[2] **Civil Tender : CE(P&C)/Contracts/Civil-69,70,71,72, & 73 for 66kV Dhanori s/s, Dadli (DRI) s/s, Manjalpur, Singa (Ekilara) s/s & Rampar (Halaru) s/s.** Construction of Control Room Building, Foundations, Cable Trench, Staff Quarter, C/Wall, RCC Road inside and WMM road outside, Yard Finishing Treatment Borewell, watchman cabin etc. & Misc. Civil works etc. at 66kV Dhanori s/s under Nacarsi Tr Circle, Dadli (DRI) s/ sunder Gondal Tr Circle, Manjalpur s/s under Jambuva Tr Circle, & Singa (Ekilara) s/s under Himmatnagar Tr Circle, & Rampar (Halaru) s/s under Anjar Tr Circle.

[3] **Proc & Contract Tender:** Purchase of 66kV and 22 kV Isolator.

[4] **Public Notice is put up on www.getcojgujarat.com** (For view & download) to increase bidders for LA, Battery sets, Battery Charger, BPI, F/W Connectors and LT Panel Board under Vendor Development Policy.

Above Tender are available on web-site www.getcojgujarat.com (for view and download only) & <https://www.nprocure.com> (

इण्डिया फिन्सैक लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही हेतु स्टैटसअलोन एवं समेकित वित्तीय परिणामों का सारांश

पूर्वांतर रेटलवे
खुली ई-निविदा सूचना सं. इण्डज/इ.सी./ओ.टी./17/2022 दिनांक 04-08-2022

पूर्वांतर रेटलवे
ई-प्रापण निविदा सूचना सं. 06 ट्रेडक 2022
भारत के राष्ट्रपति की ओर से मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण, पूर्वांतर रेटलवे

Advik Capital Limited
एडविक कैपिटल लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: प्लॉट नंबर 84, खसरा नंबर, 143/84, भूख, विस्तारित लात डोरा, कंझावाला, दिल्ली - 110081

दक्षिण रलव
वैद्युत (सामान्य), निर्माण, केनई एगमोर निविदा सूचना सं.

इण्डियन ओवरसीज बैंक
सर्फेसी एक्ट 2002 के अन्तर्गत ई-नीलामी दिनांक 12.09.2022
वित्तीय आसितियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

केंद्रीय कार्यालय: भवन संख्या 80, प्रथम तल, वीएसएनएल कार्यालय के पास, तेजगढ़ी चौपाड़ा, मेरठ - 250005

RAGHUNATH INTERNATIONAL LIMITED
CIN No.: L52312UP1994PLC022559
Registered Office : 8/226, Second Floor, SGM Plaza, Arya Nagar, Kanpur UP 208002

मिडिस्ट इटीग्रेटेड स्टील्स लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय : एच-1, जमशेदपुर कम्युनिटी सेंटर, केलाहा कॉलेजी, नई दिल्ली-110048

RTCL LIMITED
CIN No.: L52312UP1994PLC022559
Registered Office : 8/226, Second Floor, SGM Plaza, Arya Nagar, Kanpur UP 208002

31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही तथा नौमाही हेतु अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विवरण का सारांश